



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1942 (श0)

(सं0 पटना 261) पटना, बुधवार, 29 अप्रील 2020

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

30 मार्च 2020

सं0 5 न0वि0/वि-41/2020-1429/न0वि0एवंआ0वि0—कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉक डाउन के फलस्वरूप राज्य के नगरपालिका क्षेत्र के नागरिकों द्वारा होल्डिंग टैक्स ससमय जमा करना संभव नहीं रह गया है।

2. अतएव विचारोपरान्त उपर्युक्त वर्णित विशेष स्थिति में बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 12 के तहत 31.03.2020 से 30.04.2020 तक सम्पति कर का विलम्ब से भुगतान के फलस्वरूप उक्त अवधि के लिए सम्पति कर पर ब्याज की राशि के भुगतान से छूट दिया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 261-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>